



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 439]  
No. 439]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 29, 1979/कार्तिक 7, 1901  
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 1979/KARTIKA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1979

धन-कर

का०सा० 610(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन-कर अधिनियम, (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन-कर नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये दुरुस्त प्रवृत्त होंगे।

2. धन-कर नियम, 1957 में,—

(क) प्रारूप 'ज' में टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जायेगा, अर्थात्:—

“3. अपील का ज्ञापन अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिये या, यदि अपील किसी ऐसे राज्य में स्थित न्यायापीठ के समक्ष फाइल की जाती है जो आयकर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिये अपील अधिकरण के सभापति द्वारा तत्समय अधिसूचित है तो, अपीलार्थी के विकल्प के अनुसार हिन्दी में लिखी जानी चाहिये और उसमें, अपील आधारों को संक्षेप में तथा सुभिन्न शीर्षों के अधीन, बिना किसी तर्क या विवरण के, उपवर्णित किया जाना चाहिये और ऐसे आधारों को क्रमवार संख्यांकित किया जाना चाहिये।

(ख) प्रारूप 'छ' में टिप्पण 2 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:—

“2. प्रत्याक्षेप का ज्ञापन अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिये या, यदि “ज्ञापन किसी ऐसे राज्य में स्थित न्यायापीठ के समक्ष फाइल किया जाता है जो आयकर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिये अपील अधिकरण के सभापति द्वारा तत्समय अधिसूचित है तो प्रत्यर्थी के विकल्प के अनुसार हिन्दी में लिखा जाना चाहिये और उसमें प्रत्याक्षेपों को संक्षेप में तथा सुभिन्न शीर्षों के अधीन, बिना तर्क या विवरण के, उपवर्णित किया जाना चाहिये और ऐसे आक्षेपों को क्रमवार संख्यांकित किया जाना चाहिये।”

[सं० 3049/का०सं० 143/4/78-टी पी एल]  
एस० एन० शेण्डे, सचिव  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

MINISTRY OF FINANCE  
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 1979

WEALTH-TAX

S.O. 610(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (Second Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Wealth-tax Rules, 1957,—

(a) in Form F, for Note 3, the following Note shall be substituted, namely :—

“3. The memorandum of appeal should be written in English or, if the appeal is filed in a Bench located in any such State as is for the time being notified by the President of the Appellate Tribunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963, then, at the option of the appellant, in Hindi, and should set forth, concisely and under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.”;

(b) in Form G, for Note 2, the following Note shall be substituted, namely :—

“2. The memorandum of cross-objections should be written in English or, if the memorandum is filed in a Bench located in any such State as is for the time being notified by the President of the Appellate Tribunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963, then, at the option of the respondent, in Hindi, and should set forth, concisely and under distinct heads, the cross-objections without any argument or narrative and such objections should be numbered consecutively.”.

[No. 3049/F. No. 143(4)/78-1PL]

S. N. SHENDE, Secy.

Central Board of Direct Taxes